

फॉर्म L-1-A-RA

बीमाकर्ता का नाम: भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण संख्या 512 और आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि 01.01.2001

31.03.2025 को समाप्त तिमाही अवधि के लिए राजस्व खाता  
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

|                                                               |                               |                   |          |           |            |          |                    |          |          |           |            |              |           |          |           |           |            |           | (राशि रुपये करोड़ में) |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|-------------|
| विवरण                                                         | अनुसूची संदर्भ प्रपत्र संख्या | जुड़ा हुआ व्यवसाय |          |           |            |          | गैर-लिंक्ड व्यवसाय |          |          |           |            |              |           |          |           |           | सीरएसी     | कुल योग   |                        |             |
|                                                               |                               | जीवन              | पेंशन    | स्वास्थ्य | परिवर्तनीय | कुल      | सहभागी             |          |          |           |            | गैर - सहभागी |           |          |           |           |            |           |                        |             |
|                                                               |                               | जीवन              | पेंशन    | स्वास्थ्य | परिवर्तनीय | कुल      | जीवन               | वार्षिकी | पेंशन    | स्वास्थ्य | परिवर्तनीय | कुल          | जीवन      | वार्षिकी | पेंशन     | स्वास्थ्य | परिवर्तनीय | कुल       |                        |             |
| अर्जित प्रीमियम - शुद्ध                                       |                               |                   |          |           |            |          |                    |          |          |           |            |              |           |          |           |           |            |           |                        |             |
| (a) प्रीमियम                                                  | एल 4                          | 5,152.02          | 619.83   | 27.83     | -          | 5,799.68 | 83,192.26          | 0.56     | 130.95   | -         | -          | 83,323.77    | 23,646.52 | 5,110.28 | 29,892.95 | 109.12    | 3.67       | 58,762.54 | 0.02                   | 1,47,886.01 |
| (b) करवाये गये पुनबीमा                                        |                               | (0.35)            | -        | (5.40)    | -          | (5.75)   | (35.93)            | -        | (0.03)   | -         | -          | (35.96)      | (222.57)  | -        | -         | (36.17)   | -          | (258.74)  | -                      | (300.45)    |
| (c) पुनबीमा स्वीकृत                                           |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | -           |
| निवेश से आय:                                                  |                               |                   |          |           |            |          |                    |          |          |           |            |              |           |          |           |           |            |           |                        |             |
| (a) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल                             |                               | 225.51            | 62.08    | 21.85     | -          | 309.44   | 50,902.04          | 93.47    | 786.43   | -         | -          | 51,781.94    | 10,249.71 | 2,897.40 | 13,993.94 | 15.51     | 1.97       | 27,158.53 | 3.99                   | 79,253.90   |
| (b) निवेश के विक्रय / मोचन पर लाभ                             |                               | 118.80            | 189.98   | 39.02     | -          | 347.80   | 3,043.76           | -        | -        | -         | -          | 3,043.76     | 9,329.92  | 9.34     | 287.53    | 8.60      | 0.35       | 9,635.74  | 0.14                   | 13,027.44   |
| (c) (निवेश के विक्रय / मोचन पर नुकसान)                        |                               | 3.56              | 3.66     | 2.44      | -          | 9.66     | 485.23             | (0.35)   | 0.01     | -         | -          | 484.89       | 820.39    | -        | (127.45)  | -         | -          | 692.94    | (0.01)                 | 1,187.48    |
| (d) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ/स्थानांतरण* |                               | 105.44            | (131.14) | (46.17)   | -          | (71.87)  | 13.85              | -        | -        | -         | -          | 13.85        | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | (58.02)     |
| (e) प्रीमियम का परिशोधन/ निवेश पर छूट                         |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | (246.60)           | (1.94)   | (3.99)   | -         | -          | (252.53)     | (10.22)   | (15.36)  | -         | (0.02)    | -          | (25.60)   | -                      | (278.13)    |
| अन्य आय                                                       |                               | (0.28)            | -        | -         | -          | (0.28)   | 107.98             | -        | -        | -         | -          | 107.98       | 79.73     | -        | 35.03     | 0.02      | (0.06)     | 114.72    | -                      | 222.42      |
| शेयरधारकों के खाते से अंशदान:                                 |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | -           |
| (a) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय                                  |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | 597.70             | -        | 4.80     | -         | -          | 602.50       | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | 602.50      |
| (b) अन्य                                                      |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | 14.15              | -        | -        | -         | -          | 14.15        | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | 14.15       |
| कुल (A)                                                       |                               | 5,604.70          | 744.41   | 39.57     | -          | 6,388.68 | 1,38,074.44        | 91.74    | 918.17   | -         | -          | 1,39,084.35  | 43,893.48 | 8,001.66 | 44,082.00 | 97.06     | 5.93       | 96,080.13 | 4.14                   | 2,41,557.30 |
| कमीशन                                                         | एल 5                          | 98.03             | 20.42    | 1.37      | -          | 119.82   | 7,029.84           | 0.01     | 2.66     | -         | -          | 7,032.51     | 413.03    | 140.05   | 0.01      | 5.95      | 0.10       | 559.14    | -                      | 7,711.47    |
| बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय                          | एल 6                          | 229.80            | 34.11    | 2.60      | -          | 266.51   | 7,709.47           | 1.41     | 14.49    | -         | -          | 7,725.37     | 609.53    | 108.04   | 59.52     | 14.49     | 0.09       | 791.67    | 0.06                   | 8,783.61    |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान                                  |                               | (1.32)            | (0.27)   | -         | -          | (1.59)   | (1,031.51)         | -        | -        | -         | -          | (1,031.51)   | 1.98      | 16.34    | -         | -         | -          | 18.32     | (0.17)                 | (1,014.95)  |
| अशोध्य ऋण बढ़े खाते में डाले गए                               |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | -           |
| कर के लिए प्रावधान                                            |                               | 3.26              | -        | 1.38      | -          | 4.64     | 1,478.06           | 0.01     | -        | -         | -          | 1,478.07     | 1,706.20  | 17.31    | 158.73    | 7.74      | 0.20       | 1,890.18  | 13.39                  | 3,386.28    |
| प्रावधान (कराधान के अलावा) :                                  |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | -           |
| (a) निवेश(शुद्ध) के मूल्य में कमी के लिए                      |                               | 5.32              | 3.30     | 2.02      | -          | 10.64    | (243.05)           | -        | -        | -         | -          | (243.05)     | 31.86     | -        | -         | -         | -          | 31.86     | -                      | (200.55)    |
| (b) अन्य के लिए                                               |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | (184.80)           | (0.12)   | (5.36)   | -         | -          | (190.28)     | (6.45)    | (2.20)   | (15.38)   | (0.03)    | -          | (24.06)   | -                      | (214.34)    |
| यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर                              |                               | 71.60             | 10.39    | 3.89      | -          | 85.88    | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | 85.88       |
| कुल (B)                                                       |                               | 406.69            | 67.95    | 11.26     | -          | 485.90   | 14,758.01          | 1.31     | 11.79    | -         | -          | 14,771.11    | 2,756.15  | 279.54   | 202.88    | 28.15     | 0.39       | 3,267.11  | 13.28                  | 18,537.40   |
| भुगतान किए गए लाभ (शुद्ध)                                     | एल 7                          | 762.59            | 462.46   | 55.60     | -          | 1,280.65 | 90,566.49          | 82.83    | 1,005.90 | -         | -          | 91,655.22    | 17,397.41 | 2,494.96 | 28,858.21 | 9.18      | 2.89       | 48,762.65 | 0.12                   | 1,41,698.64 |
| भुगतान किया गया अंतरिम बोनस                                   |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | 546.34             | -        | 0.18     | -         | -          | 546.52       | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | 546.52      |
| जीवन पॉलिसियों के संबंध में देयता के मूल्यांकन में परिवर्तन   |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | -           |
| (a) सकल **                                                    |                               | 8.95              | (9.72)   | (5.66)    | -          | (6.43)   | 25,946.23          | (62.21)  | (435.07) | -         | -          | 25,448.95    | 12,891.24 | 5,108.29 | 13,930.74 | 6.56      | 1.32       | 31,938.15 | (34.21)                | 57,346.46   |
| (b) पुनबीमा में दी गई राशि                                    |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | -           |
| (c) पुनबीमा में स्वीकृत राशि                                  |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | -           |
| (d) लिंक्ड पॉलिसियों के लिए निधि रिजर्व                       |                               | 4,383.25          | 197.13   | (31.15)   | -          | 4,549.23 | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | 4,549.23    |
| (e) बंद नीतियों के लिए निधि                                   |                               | 85.90             | 16.30    | -         | -          | 102.20   | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | 102.20      |
| (f) भविष्य के विनियोगों के लिए शेष निधि-जुड़ा हुआ व्यवसाय     |                               | 25.04             | -        | -         | -          | 25.04    | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | 25.04       |
| कुल (C)                                                       |                               | 5,265.73          | 666.17   | 18.79     | -          | 5,950.69 | 1,17,059.06        | 20.62    | 571.01   | -         | -          | 1,17,650.69  | 30,288.65 | 7,603.25 | 42,788.95 | 15.74     | 4.21       | 80,700.80 | (34.09)                | 2,04,268.09 |
| अधिशेष/(घाटा) (D) =(A)-(B)-(C)                                |                               | (67.72)           | 10.29    | 9.52      | -          | (47.91)  | 6,257.37           | 69.81    | 335.37   | -         | -          | 6,662.55     | 10,848.68 | 118.87   | 1,090.17  | 53.17     | 1.33       | 12,112.22 | 24.95                  | 18,751.81   |
| शेयरधारकों के खाते से अतिरिक्त राशि (गैर-तकनीकी खाता)         |                               | 86.26             | 14.10    | -         | -          | 100.36   | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | 869.15    | -        | -         | -         | -          | 869.15    | -                      | 969.51      |
| विनियोग के लिए उपलब्ध राशि                                    |                               | 18.54             | 24.39    | 9.52      | -          | 52.45    | 6,257.37           | 69.81    | 335.37   | -         | -          | 6,662.55     | 11,717.83 | 118.87   | 1,090.17  | 53.17     | 1.33       | 12,981.37 | 24.95                  | 19,721.32   |
| विनियोग                                                       |                               |                   |          |           |            |          |                    |          |          |           |            |              |           |          |           |           |            |           |                        | -           |
| शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण                             |                               | 18.54             | 24.39    | 9.52      | -          | 52.45    | 6,228.91           | 0.10     | 16.76    | -         | -          | 6,245.77     | 11,717.83 | 118.87   | 1,090.17  | 53.17     | 1.33       | 12,981.37 | 24.95                  | 19,304.54   |
| अन्य रिजर्व में स्थानांतरण (निर्दिष्ट किया जाना है)           |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | -                  | -        | -        | -         | -          | -            | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | -           |
| भविष्य के विनियोगों के लिए शेष निधि                           |                               | -                 | -        | -         | -          | -        | 28.46              | 69.71    | 318.61   | -         | -          | 416.78       | -         | -        | -         | -         | -          | -         | -                      | 416.78      |
| कुल                                                           |                               | 18.54             | 24.39    | 9.52      | -          | 52.45    | 6,257.37           | 69.81    | 335.37   | -         | -          | 6,662.55     | 11,717.83 | 118.87   | 1,090.17  | 53.17     | 1.33       | 12,981.37 | 24.95                  | 19,721.32   |

\*प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार प्राप्त किये गए वास्तविक लाभ का प्रतिनिधित्व  
\*\* बोनस के आवंटन के बाद गणितीय भंडार का प्रतिनिधित्व करता है  
गत वर्ष के आकड़ों को वर्तमान वर्ष के आकड़ों के साथ तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समुहिकृत/ वर्गीकृत किया गया है।  
नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा ।